

## SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Lotus Corporate Park, 'E' Wing, 5th/6th Floor, 185/A, Graham Firth Compound, Near Jay Coach, Goregaon (East), Mumbai 400 063, INDIA.

Phone: (022) 4219 8800/6122 8989 Fax (022) 42198830 E-mail: info@sutlejtextiles.com Website: www.sutlejtextiles.com

CIN.: L17124RJ2005PLC020927

08th August, 2021

**BSE Ltd.** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001.

**Scrip Code: 532782** 

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

**Scrip Code: SUTLEJTEX** 

Dear Sirs,

Sub: Notice of 16th Annual General Meeting - Newspaper Publication

This is further to our letter dated 07<sup>th</sup> August, 2021 and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Dainik Bhaskar (Hindi) with regard to the 16<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.

You are requested to take note of the same.

Thanking you

Yours faithfully

For Sutlej Textiles and Industries Limited

Manoj Contractor

my dracker

Company Secretary and Compliance Officer

Bhawanimandi (RAJ.)

**FE SUNDAY** 

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM



## **SMS PHARMACEUTICALS LIMITED**

Regd. Office: Plot No. 72, H.No: 8-2-334/3 & 4, Road No. 5, Opp. SBI Executive Enclave, Banjara Hills, Hyderabad TG 500034 Phone: 040-35359999, Fax:040-25259889, Email: complianceofficer@smspharma.com, www.smspharma.com

Extract of Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 (₹ in Lakhs)

|               |   | Standalone                                 |           |  | Consolidated                               |  |  |
|---------------|---|--|-----------|--|--|--|--|
| SI.<br>No.    | Particulars   | Quarter ended<br>30.06.2021<br>(Unaudited) |           | Quarter ended<br>30.06.2020<br>(Unaudited) | Quarter ended<br>30.06.2021<br>(Unaudited) | Quarter ended<br>31.03.2021<br>(Audited) | Quarter ended<br>30.06.2020<br>(Unaudited) |
| 1             | Total Income from Operations (net)  | 16,428.73                                  | 17,259.02 | 11,370.73                                  | 16,428.73                                  | 17,259.02                                | 11,370.73                                  |
| $\overline{}$ | Profit from Ordinary Activities before Tax  | 3,276.85                                   | 3,430.85  | 1,381.06                                   | 3,276.85                                   | 3,430.85                                 | 1,381.06                                   |
| 3             | Profit from Ordinary Activities after Tax (after Extraordinary Items)   | 2,319.94                                   | 2,221.32  | 920.38                                     | 2,356.27                                   | 2,313.71                                 | 702.71                                     |
| 4             | Total Comprehensive Income for the quarter (comprising profit/Loss)<br>for the quarter (after tax) and other comprehensive items) | 2,314.73                                   | 2,211.92  | 918.24                                     | 2,352.81                                   | 2,309.98                                 | 701.01                                     |
| 5             | Equity Share Capital (Face value of share: Re.1/- each)   | 846.52                                     | 846.52    | 846.52                                     | 846.52                                     | 846.52                                   | 846.52                                     |
| 6             | Reserves (excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet) Re. 1/- each  |  |           |  |  |  |  |
| 7             | Earnings per share (before extraordinary items - (Not annualized)   |  |           |  |  |  |  |
|               | a) Basic/Diluted (in Rs)  | 2.74                                       | 2.62      | 1.09                                       | 2.78                                       | 2.73                                     | 0.83                                       |

- 1 The above Standalone and consolidated Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on 7th August, 2021 and Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review.
- 2 These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed Under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- 3 The above is an extract of detailed format of guarterly / annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of quarterly / annual financial results are available on the website of the Stock Exchanges of BSE www.bseindia.com(ID 532815) or NSE (www.nseindia.com) and companies website (www.smspharma.com). By order of the Board

For SMS Pharmaceuticals Limited Ramesh Babu Potluri Chairman & Managing Director (DIN:00166381)

Date: 07.08. 2021

RAINK,

Place: Hyderabad



CIN: L74210TG1994PLC017356 Regd. Office: 15th Floor, Ramky Grandiose, Sy. 136/2 & 4, Gachibowli, Hyderabad - 500032

Ph: 040 - 23015000 Fax: 040-23015100; website: www.ramkyinfrastructure.com; E-mail: secr@ramky.com

(All amounts in Rupees Millions except share data)

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021

|           | PARTICULARS   | STANDALONE    |                       |                   |              | CONSOLIDATED  |                |                  |              |
|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| S.<br>No. |   | Quarter Ended |                       |                   | Year Ended   | Quarter Ended |                |                  | Year Ended   |
|           |   | June 30, 2021 | Mar 31, 2021          | June 30, 2020     | Mar 31, 2021 | June 30, 2021 | Mar 31, 2021   | June 30, 2020    | Mar 31, 2021 |
|           |   | (Una          | (Unaudited) (Audited) | (Unaudited)       | (Audited)    | (Unaudited)   | (Audited)      | (Unaudited)      | (Audited)    |
| 1         | Total Income from Operations  | 2,205.89      | 2,541.65              | 2,136.39          | 9,121.96     | 2,631.62      | 2,689.91       | 2,381.26         | 10,562.96    |
| 2         | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax<br>and Exceptional items)  | 546.30        | 497.11                | (68.82)           | 610.86       | 285.13        | (115.89)       | (461.11)         | (696.08)     |
| 3         | Net Profit / (Loss) for the period before tax<br>(after Exceptional items)  | 546.30        | 497.11                | (68.82)           | 610.86       | 285.13        | (115.89)       | (461.11)         | (696.08)     |
| 4         | Net Profit / (Loss) for the period after tax<br>(after Exceptional items)   | 526.52        | 479.12                | (86.34)           | 539.50       | 278.35        | 855.17         | (619.59)         | 194.71       |
| 5         | Total Comprehensive Income for the period<br>[Comprising Profit / (Loss) for the period<br>(after tax) and Other Comprehensive Income<br>(after tax)] | 534.06        | 481.15                | (78.62)           | 538.22       | 285.89        | 853.25         | (611.87)         | 189.48       |
| 6         | Equity Share Capital  | 691.98        | 691.98                | 691.98            | 691.98       | 691.98        | 691.98         | 691.98           | 691.98       |
| 7         | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as<br>shown in the Audited Balance Sheet   |               |                       |                   | 4,968.26     |               |                |                  | 2,705.97     |
| 8         | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each ) (for continuing and discontinued operations)   |               |                       |                   |              |               |                |                  |              |
|           | 1. Basic: (Rs.)<br>2. Diluted: (Rs.)  | 7.61<br>7.61  | 6.92<br>6.92          | a (4.500,000,100) | 7.80<br>7.80 | 0.05557702    | 11.51<br>11.51 | (7.12)<br>(7.12) | 2.83<br>2.83 |

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on
- August 06, 2021. 2 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with stock exchanges under regulation 33 of SEBI (LODR) 2015. The Full format of the quarterly financial results is available on Stock exchanges websites viz., www.bseindia.com and

For Ramky Infrastructure Limited

Y R Nagaraja Managing Director

DIN: 00009810

Date: 06.08.2021 Place: Hyderabad

## **CMI LIMITED** Regd. Office: PD II, Jhilmil Metro Station, Jhilmil Industrial Area,

CIN L74899DL1967PLC018031

Delhi - 110 095, Ph: 0129-4876177

Website: www.cmilimited.in Email: info@cmilimited.in

#### NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEB (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 14th August, 2021, to inter alia, consider and approve the unaudited Financial Results for the guarter ended on 30th June, 2021.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.cmilimited.in and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and www.nseindia.com

Further, as intimated earlier vide our letter dated 03rd July, 2021 pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended by SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 and in accordance with the Code of conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by insiders, the "Trading Window" which has been closed from 01st April, 2021 shall remain closed till 16th August, 2021 i.e. 48 hours after the announcement by the Company of the results to the stock exchanges on 14th August. 2021.

For CMI Limited

Date: 07.08.2021 Place: New Delhi Subodh Kumar Barnwal (Company Secretary) **CMI LIMITED** 

CIN L74899DL1967PLC018031 Regd. Office: PD II, Jhilmil Metro Station, Jhilmil Industrial Area.

Delhi - 110 095, Ph: 0129-4876177 Website: www.cmilimited.in Email: info@cmilimited.in

#### NOTICE OF BOARD MEETING

(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th August, 2021, to inter alia, consider and approve the Audited Financial Results for the guarter and year ended on 31st March, 2021.

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI

The said notice may be accessed on the Company's website at www.cmilimited.in and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended by SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 and in accordance with the Code of conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, the "Trading Window" shall remain closed till declaration of unaudited financial results for the June quarter i.e. 48 hours after the announcement by the Company of the results to the stock exchanges.

For CMI Limited

Date: 07.08.2021 Place: New Delhi Subodh Kumar Barnwal (Company Secretary)



## Indiabulls Real Estate Limited

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter ended 30 June 2021

(₹in Lakhs)

(7,228.92)

| SI.<br>No. | Particulars   | 3 months ended | Previous year<br>ended | 3 months<br>ended |
|------------|---|----------------|------------------------|-------------------|
|            |   | 30 June 2021   | 31 March 2021          | 30 June 2020      |
|            |   | (Unaudited)    | (Audited)              | (Unaudited)       |
| 1          | Total Income from Operations  | 53,203.12      | 1,66,205.95            | 9,503.72          |
| 2          | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and/or Extraordinary items)      | 2,134.59       | 7,519.33               | (9,097.87)        |
| 3          | Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 2,134.59       | 7,519.33               | (9,097.87)        |
| 4          | Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 476.24         | 430.25                 | (9,456.48)        |
| 5          | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]              | 12,286.13      | 777.37                 | (6,801.35)        |
| 6          | Equity Share Capital  | 9,030.77       | 9,030.77               | 9,030.77          |
| 7          | Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)  |                | MAGE-17041             |                   |
|            | - Basic (Amount in ₹ )  | 0.10           | 0.10                   | (2.08)            |
|            | - Diluted (Amount in ₹)   | 0.10           | 0.10                   | (2.08)            |
|            | Earnings per Share (EPS) after extraordinary items  |                |                        |                   |
|            | *(EPS for the quarters are not annualised)  |                | 192300                 |                   |
|            | - Basic (Amount in ₹)   | 0.10           | 0.10                   | (2.08)            |
|            | - Diluted (Amount in ₹)   | 0.10           | 0.10                   | (2.08)            |

2. Key Standalone Financial Information: (₹ in Lakhs)

3 months Previous year 3 months ended ended ended **Particulars** 30 June 2021 31 March 2021 30 June 2020 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income 342.94 4,718.40 1,284.38 (Loss) / Profit before Tax (1,509.92)(13,926.44)(7,239.01)

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://indiabullsrealestate.com) and on the website of BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com).

Registered Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurugram - 122016, Haryana (CIN: L45101HR2006PLC095409)

Mehul Johnson

Place: Gurugram Date: 7 August 2021

Net (Loss) / Profit after Tax

Joint Managing Director

(13.962.58)

For and on behalf of the Board of Directors

## Tyche Industries Limited CIN:L72200TG1998PLC029809

H.No.C-21/A,Road No.9,Film Nagar,Jubilee Hills,Hyderabad Telangana, Hyderabad - 500096

www.nseindia.com and on company's website www.ramkyinfrastructure.com

STATEMENT OF UN-AUDITED RESULTS FOR THE 1ST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021 (Rs. in Lakhs Quarter Ended Year Ended

|          | rear Ende   |   |  |
|----------|---|---|--|
|          | Control of Control of Control of  |   |  |
| 1320.05  | 1701.03   | 2017.53   | 8298.03  |
| 230.69   | 269.34  | 782.71  | 2772.4   |
| 230.69   | 170.41  | 782.71  | 2673.49  |
| 173.10   | 113.91  | 585.43  | 1998.3   |
| 173.10   | 98.39   | 585.44  | 1982.8   |
| 1,024.53 | 1,024.53  | 1,024.53  | 1024.5   |
| 1.69     | 0.96  | 5.71<br>5.71  | 19.3<br>19.3   |
|          | 30.06.2021<br>Un-Audited<br>1320.05<br>230.69<br>230.69<br>173.10<br>1,024.53 | 30.06.2021 31.03.2021 Audited 1320.05 1701.03 230.69 269.34 230.69 170.41 173.10 113.91 173.10 98.39 1,024.53 1,024.53 0.96 | 1320.05 1701.03 2017.53<br>230.69 269.34 782.71<br>230.69 170.41 782.71<br>173.10 113.91 585.43<br>173.10 98.39 585.44<br>1,024.53 1,024.53 1,024.53 |

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 06th August, 2021.
- 2) Statutory Auditors have carried out Limited Review of the financial results for the guarter ended 30th June 2021.
- 3) The figures for the guarter ended 31st March 2021 are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended 31st March 2021 and the unaudited year to date figures upto the third guarter of the financial year.
- Results are available at the company's website 'www.tycheindustries.net and also at BSE web site 'www.bseindia.com'.
- The Company operates exclusively in one reportable business segmen i.e. "Pharmaceuticals'.
- Figures of previous period have been re-arranged/regrouped wherever necessary, to correspond with the figures of the current period.
- Consequent to the accident in the factory on 11th March, 2021, the company was temporarily closed from 13th March, 2021. Upon submission of compliance requirements to the Jurisdictional Deputy Chief Inspector of Factories, the operations resumed in all the production blocks, except the one where the accident occurred which is currently under restoration. This temporary closure has impacted the operations and the performance during
- The company made the claim for Insurance for the value of inventories lost and reinstatement value of the fixed assets damaged. The Claim is expected to be received shortly.
- National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi and their findings and pronouncements are expected to be received during the 2nd guarter and the company shall take appropriate steps in this regard upon receiving their response thereon.
- For and on behalf of Board of Directors of Tyche Industries Limited Place:Hyderabad sd/ G. Ganesh Kumar

Date:06.08.2021 Managing Director

## SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 CIN: L17124RJ2005PLC020927 Tel: (07433)222052 

#### NOTICE OF THE SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting ('AGM') of Sutlej Textiles and Industries Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 31st August, 2021 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'); provisions of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 08<sup>th</sup> April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, and General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') read with Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by SEBI and other applicable Circulars issued by MCA/SEBI (collectively referred to as 'MCA and SEBI Circulars). In compliance with the above mentioned provisions, Notice of the 16th AGM and the Annual Report has been emailed only to those

Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Reports to Members has been completed on Saturday, 07th August, 2021. The Notice of 16th AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 are available on the Company's website

www.sutlejtextiles.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

## Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09th December, 2020 relating to 'e-voting Facility Provided by Listed Entities', the Company is pleased to provide its Members facility of remote e-voting and e-voting during the AGM. As per SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09th December, 2020 e-voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of a single login credentials through their demat accounts/websites of Depository Participant(s). The Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting service. Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 16th AGM will be transacted only through voting by electronic means. The process for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of 16" AGM.

The remote e-voting will commence on Saturday, 28th August, 2021 (9.00 a.m. IST) and end on Monday, 30th August, 2021 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote is cast by a Member, he / she will not be allowed to change it subsequently.

Members attending the AGM through VC / OAVM and who have not cast their vote on the resolutions forming part of the Notice through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting facility provided during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again.

The Cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Tuesday, 24th August, 2021.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th August, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or ashok.sherugar@linkintime.co.in.

The procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the notes to the Notice of the 16" AGM. Members, who need assistance for participating in e-AGM through VC, can contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in or through telephone on the number: 022-2499 4545. In case of any queries relating to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads Section of NSDL e-voting website at https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 / evoting@nsdl.co.in or may contact Mr. Ashok Sherugar, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Email ID: ashok.sherugar@linkintime.co.in, Telephone No. 022 - 4918 6000.

#### Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in AGM Notice:

- a) In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy) and AADHAR (self-attested scanned copy) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), name,
- client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAR (self-attested copy) to Alternatively Member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the

details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be. Procedure for joining the AGM through VC / OAVM and live webcast of AGM proceedings

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of the AGM at https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVEN for Company's AGM. The detailed procedure for attending the AGM through VC / OAVM is mentioned in Notes to the Notice of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM. For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Company Secretary and Compliance Officer

Manoj Contractor Place : Mumbai

## SIL INVESTMENTS LIMITED

(1,523.86)

Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082; Email: investor.grievances@silinvestments.in; Website: www.silinvestments.in CIN: L17301RJ1934PLC002761

#### NOTICE OF THE EIGHTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the Eighty Seventh Annual General Meeting ('AGM') of SIL Investments Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 31" August, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'); provisions of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 08\* April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13\* April, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') read with Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021 issued by SEBI and other applicable Circulars issued by MCA/SEBI (collectively referred to as 'MCA and SEBI Circulars). In compliance with the above mentioned provisions, Notice of the 87th AGM and the Annual Report has been emailed only to those Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual

Reports to Members has been completed on Saturday, 07th August, 2021. The Notice of 87" AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 are available on the Company's website

www.silinvestments.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

## Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09th December, 2020 relating to 'e-voting Facility Provided by Listed Entities', the Company is pleased to provide its Members facility of remote e-voting and e-voting during the AGM. As per SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09th December, 2020 e-voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of a single login credentials through their demat accounts/websites of Depository Participant(s). The Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting service. Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 87th AGM will be transacted only through voting by electronic means. The process for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the

The remote e-voting will commence on Saturday, 28th August, 2021 (9.00 a.m. IST) and end on Monday, 30th August, 2021 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote is cast by a Member, he / she will not be allowed to change it subsequently.

Members attending the AGM through VC / OAVM and who have not cast their vote on the resolutions forming part of the Notice through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting facility provided during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but will not be

The Cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Tuesday, 24" August, 2021.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th August, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or ashok.sherugar@linkintime.co.in.

The procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the notes to the Notice of the 87" AGM, Members, who need assistance for participating in e-AGM through VC, can contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in or through telephone on the number: 022-2499 4545. In case of any queries relating to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads Section of NSDL e-voting website at https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 / evoting@nsdl.co.in or may contact Mr. Ashok Sherugar, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Email ID: ashok.sherugar@linkintime.co.in, Telephone No. 022 - 4918 6000.

Procedure to be followed by those Members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in AGM Notice:

- a) In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy) and AADHAR (self-attested scanned copy) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAR (self-attested copy) to rnt.helpdesk@linkintime.co.in
- Alternatively Member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be.

Procedure for joining the AGM through VC / OAVM and live webcast of AGM proceedings

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of the AGM at https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVEN for Company's AGM. The detailed procedure for attending the AGM through VC / OAVM is mentioned in Notes to the Notice of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM. For SIL Investments Limited

Lokesh Gandhi

financialexp.epa

Date: 07" August, 2021

Place: Mumbai

Date: 07th August, 2021

Company Secretary and Compliance Officer

#### रायपर • मनोहरथाना • बकानी • पिडावा पनवाड

#### आज का पंचांग • पंडित प्रो. विनोद शास्त्री

तिथि संवत् : श्रावण, कृष्ण पश्च अमावस्या रविवार सायं 7:20 तक रहेगी। विक्रम संवत् 2078, शाके 1943, हिजरी 1442, मुस्लिम माह जिलहिज, तारीख 28, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, 8 अगस्त।

सर्योदय कालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र प्रातः ०९:19 तकः, इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। वरियान योग रात्रि 11:37 तक, इसके बाद वज योग रहेगा। चतुष्पद करण प्रातः 07:16 तक, इसके बाद नाग करण

ग्रह विचार (प्रत: 05:30): सूर्य-कर्क, चंद्र-कर्क, मंगल-सिंह, सुध-कर्क, गुरु-कुंभ, शुक्र-सिंह, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में स्थित है। राहकाल:

सायं 04:30 से 06:00 तक रहेगा।

शुभाशुभ ज्ञानम् बुध मधा सिंह में रात्रि 01:34. शुक्र उ.फा. में सार्य 04:12,

देवपितृकार्यं अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सरस माधुरी जयंती, मेला हरियाली अमावस्या उदयपुर, व्यतिपात पुण्यं, रवि पुष्यं योग्, गंडमूल प्रारंभ प्रातः

09:19 से। दिशाशूल : पश्चिम दिशाः यदि जरूरी हो तो छुआरा खाकर यात्रा कर सकते हैं

चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 07:37 से 09:15 तक चर का, प्रातः 09:15 से 12:32 तक लाभ व अमृत का, दोपहर 02:11 से दोपहर बाद 03:49 तक शुभ का चौधड़िया रहेगा। आज विशेष :

आज अमावस्या को पितृगणों के निमित्त श्राद्ध अथवा तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है।

#### आज जन्मे बच्चों के नामाक्षर व राशि

| समय   | RIBF    | तरण | UKE | राशि | नहमाक्षर |
|-------|---------|-----|-----|------|----------|
| 05:58 | ded     | 4   | रवत | कर्क | ख        |
| 09:19 | अश्लेषा | 1   | रजत | कर्क | धी       |
| 15:30 | अश्लेषा | 2   | रजत | कर्क | इ        |
| 21:38 | अश्लेषा | 3   | रजत | कर्क | डे       |
| 03:45 | अश्लेषा | 4   | रजत | कर्क | डो       |

#### बिजनेस प्लस

#### निरोगधाम हॉस्पिटल में हुआ सफल ऑपरेशन

अकतेश। मकान वहने के कारण कस्बे में एक महिला गंभीर घायल हो गई। इसका निरोगधाम अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया। अस्पताल निदेशक कंवर लाल मीणा ने बताया कि अकलेरा क्षेत्र के सड़िया कुआं गांव में शुक्रवार सुबह बरसात के कारण मकान गिर गया, जिसमें मोहनी बाई दबने के कारण घायल हो गई। उसे बेहोशी की हालत में ही परिजन अस्पताल में लेकर आए। महिला की दो पसलियां टूट गई और साथ किल्ली फट जाने से पेट के अंदर खून भी ज्या होने लग गया था। आपतकालीन कक्ष में तुरंत ही महिला को भर्ती कर अस्पताल में कार्यरत डॉ. प्रजीग सोलंकी, डॉ. गुनाशकर,डॉ. भानसिंह द्वारा महिला का ऑफ्रेशन कर फटी तिल्ली को निकाली। ऑफ्रेशन थिएटर में कार्यरत लीला मालव, निशा पारेता, गोल् आदित्य शर्मा का भी सहयोग रहा।

मंडी भावः ज्ञालापाटन। सोयाबीन 9200 से 9800, कलोजी 18000 से 20200, मसूर 5200 से 5900, चना 4200 से 4500, सरसों 6500 से 7012, मैथी 6000 से 6500, रुपए प्रति क्विटल रहे।

#### एसआईएल इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड

पजी. कार्यालय : पचपहाड़ रोड़, भवानीमंडी 326502 (राजस्थान) फोन: (07433) 222082, फैक्स : (07433) 222916 वेबसाईट: www.silinvestments.in I CIN No. : L1730RJ1934PLC002761, Email: investor grieva

#### सतासीवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एवदहारा सूचना दी जाती है कि एसआईएल इन्वेस्टर्मेटस लिमिटेड (कंपनी) की सतासी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 31 अगस्ट 2021 को सुबह 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कारोवर पर कार्यवाही की जाएगी।

आएगा जपन एजाएन के पुराना नाना दूर काराबर पर कायसाह के जाएगा। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन वार्ग एन नियमां (अधिनियम) के लागू प्रावधानों , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) (सुवीबद्धताकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताए) विनियम 2015 (सुवीबद्धताकरण विनियम) के प्रावधानों और कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रेल 2020, सामान्य परिपन्न सं. 11/2020 दिनांक 13 अप्रेल 2020 और नामान्य परिपन्न सं. 02/2021 दिनाक 13 जनवरी 2021 के साथ पठित 5 मई 2020 के सामान्य परिपन्न सं. 20/2020 और सेबी द्वारा जारी दिनाक सामान्य परिपत्र स. 02/2021 दिनाक 13 जनवरी 2021 के साथ पीठत 5 मई. 2020 के सामान्य परिपत्र स. 20/2020 और स्वीद्वारा जारी दिनाक है। यह में इंटिय के पिपत्र से .सी. एन्याओं होए जारी दिनाक परिपत्र सं. से 21 मई 2020 के परिपत्र से .सी. 2021 के सामान्य परिपत्र सं. सेथी, एवडओ/सीएफडी/

87वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.silinvestments.in, स्टॉक एक्सचेजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डेपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoling.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

िरपोटिंदी लिरिन्दे (एनएसडीएन) की वेबसाइट www.eveling.nssl.com पर भी उपलब्ध होगी |

Rमोट ई— बोर्टिंग और एजीएम के दौरान ई— बोर्टिंग के लिए निर्देश:
कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, थवा संशोधित, के नियम 20 के साथ पित अधिनेयम की घारा 108 और सूचीबद्ध कंपनियां द्वार प्रदान
की जाने वाली 'ई-बोर्टिंग सुविधा' से सर्बंधित सेवी परिपन्न सं. सेवी/एचओ/सीएकडी/सीएसडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9

दिसंबर 2020 के साथ पित सूचीबद्धात विनियम के विनयम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी को एजीएम के दौरान अपने सदस्यों को सूद्र स्वेविटंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्तत है, सेवी परिपन्न सं. सेवी/एचओ/सीएफडी/सीएसडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9

दिसंबर 2020 के आनुसार ई-बोर्टिंग प्रक्रिया सभी वैयक्तिक डीमेट खाताधारकों के लिए उनके डीमेट खातां/शियाजिटल सेविटंग के माध्यम से एक लागिन कोडिविटंग के प्रावधन के अपने प्रसिक्त को आर्टिंग के प्रमाण किया किया की स्वाधा स्वाधा कर के लिए एनरके ले ले लिए स्वाधार की की स्वधा स्वाधा स्वधान के स्वधान सेवाय होता करने के लिए एनरके लिए उनस्वधीर लागी की बोबाएं ली है। सदस्यों को इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि 87वी एजीएम की सूचना में यथा निर्दिग्ट साधारण और विशेष कारोचार इलेक्ट्रॉनिक साधानें द्वारा सोटिंग के प्रध्यम के स्विप्त स्वधान सेव्या होता के अधिक धा अधिका 87वीं एजीएम की सूचना में वीप वीच है। स्वस्यों को इसके द्वारा सुचित के या साधान साधान साधान साधान साधान साधान साधान साधान स्वधान स्वधान सुचित स्वधान स्वधान

दूरस्थ ई-मतदान अवधि शनिवार 28 अगस्त 2021 (भारतीय समयानुसार सुबह 9.00 बजे) से शुरू होगी और सोमवार 30 अगस्त 2021 (भारतीय समयानुसार शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी, इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा मतदान करने के लिए दूरस्थ ई-मतदान मॉडयूल असमर्थ कर दिया

सभयानुवार साम 5.00 वजा, रामाप्त हिगा, इसक पश्चात एनएसडाएत हारा सत्वान करन का तर दूरव्य इन्सतवान मांडबूल असम्ब कर ादया जाएगा। एक बार प्रेयशायल हारा मतवान करने के बार, उसी बार में इस कितने की उनुमति नहीं दी जाएगी। वीडिया कॉन्फरेन्स (वीसी), अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएबीएम) के माध्यम से एजीएम में माग लेने वाले शेयरधारक और जिन्होंने सूचना के माग रूप संकल्पों पर रिमोट ई-वीटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और ऐसा करने से अन्यथा प्रतिविधित नहीं है, वे एजीएम के दौरान दी गई इंबोटिंग सुविधा के माध्यम से सतदान करने के लिए पान होंगे, जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरव्य ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, एजीएम में माग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना मत डालने के अधिकारी नहीं होंगे।

एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना मत डालने के अधिकारी नहीं होंगे।
दूरश्य हूं 'मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए येयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने और एजीएम में ई-मतदान करने की अंतिम तिथि
मानवार 24 आगत्त 2021 है।
एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने और रूपमी का शेयरशारक बनने और अंतिम तिथि, अर्थात मंगलवर, 24 अगरत
2021 को शेयर रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा evoting@nsdl.co.in या ashok.sherugar@linkintime.co.in पर अनुरोध मेजकर लॉगीन आईडी
एजीएम में रिसोट ई-योटिंग और ई-योटिंग के लिए प्रक्रिया 87वीं एजीएम के नोट में प्रदान की गई है। सदस्य, जिन्हें वीसी के माध्यम से ई-एजीएम में मान लेने के लिए सहायता की आवश्यकता है।
एजीएम में रिसोट ई-योटिंग और ई-योटिंग के आवश्यकता है, पल्ली महात्र, प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर या टेलीको नंबर
022-2499 4545 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।ई-योटिंग के मामले में सर्वधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल ई-योटिंग
वेवसाइट के डाउनलोंड अनुमाग में पपलब्ध, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएसड्रोडी सहायता ले सकते हैं और एनएसडीईएल ई-योटिंग
वेवसाइट के डाउनलोंड अनुमाग में पपलब्ध, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएसड्रोडीएल को प्राप्त क्षात्र का एनएसडीईएल ई-योटिंग
वेवसाइट के डाउनलोंड अनुमाग विमाग में उपलब्ध स्वर्त्यों के लिए इंगीटिंग उपयोगकता है। प्रत्यक्ता श्री प्रत्यक्ता श्री का एनएसडीईएल ई-योटिंग
वेवसाइट के डाउनलोंड अनुमाग विमाग में उपलब्ध स्वर्त्यों के लिए इंगीटिंग उपयोगकता है। प्रत्यक्ता श्री अप्रतिका श्रीक्षा स्थापक अधिक से स्वर्त्य के स्वर्क के स्वर्ण उपलिक्ता श्री प्रतिका श्रीक्षा स्थापक अधिक से स्वर्त्य के लिए इंगीटिंग उपयोगकता है।
प्रत्यक्ता है 18 प्रतिकार कर सकते हैं या इंगीटिंग उपयोगकता है।
पात्र , LBS मार्ग, विकारील (पश्चिम), मुम्बई-400083, ईंमल आईडी ashok.sherugar@linkintime.co.in टेलीफोन नग्वर 022-49186000 से संपर्क कर सकते हैं।

उन सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिनका ई-मेल आईडी, डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे उपयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्ति के लिए एवं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग करने हेतु ई-मेल पतों का पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका :

rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा यदि शेयर डीमेट मोड में है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंको की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंको की लामार्थी

आईडी) नाम, ग्राहक मारटर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन(स्व सत्यापित की गई प्रति), आधार कार्ड (स्वय सत्यापित प्रतिलिपि), प्रदान करें ml.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा वैकल्पिक रूप से सदस्य प्याइट (क्षेया (b)में उल्लिखित विवरण को प्रदान करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए

edl co in पर र्ड-मेल अन्योध भेज सकते है

evoling@asd.co.in पर इं-मैल अनुरोध भेज सकते हैं। वीसी/ ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया और एजीएम की कार्यवाही का लाईव वेबकास्ट शेयरधारक hitps://www.evoling.nsd.com पर अपने रिमोट ई-वोटिंग लागिन क्रिडेशियल्स का प्रयोग करते हुए और कंपनी की एजीएम के लिए "EVEN" को स्तिनंद करते हुए यीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में माग ले सकते हैं या एजीएम का लाईव वेबकास्ट देख सकते हैं। वीसी/ओवीएम ने माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में उल्लिखात की गई हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि एजीएम की शूचना में निर्विट्स सभी टिप्पणियों और विशेषकर एजीएम में शामिल होने से सबंधित अनुवेशों, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में इं-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के तरीके से सबंधित अनुवेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

कृते एसआईएल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

लोकेश गाँधी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

#### <mark>सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड</mark>

aपहाड रोड, भवानीमडी 326502 (राजस्थान)फोनः (07433)222052/82/90, फैक्स : (07433) 22 s.com **CIN NO** : L17124RJ2005PLC020927, Email: stil.investor\_grievance@su<mark>tlejt</mark>

#### सोलहवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सतलज टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज किमिटेड (कंपनी) की सोलहवीं वार्षिक साधारण समा (एजीएम) मंगलवार, 31 अगस्त 2021 को दोगस्र 3.00 बजे (भारतीय मानक सस्य) बीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/जन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएबीएम) के माध्य-से आयोजित की आएगी जिसमें एजीएन की सूचना में विस्ट कारोबर एक प्रजयंवारी की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अधिनियम) के लायू प्रावधानों , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धताकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 (सूचीबद्धताकरण विनियम) के प्रावधानों और कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रेल 2020, सामान्य परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रेल 2020 और परिपन्न सं. 02/2021 दिनाक 13 जनवरी 2021 के साथ पठित 5 मई 2020 के सामान्य परिपन्न सं. 20/2020 और सेबी द्वारा जारी दिनाव

सामान्य पापपत्र से, 02/2021 विनात 13 जनवरा 2021 के साथ पापत 5 मह 2020 के सामान्य पापरत्र से, 20/2020 और सवा द्वारा जारा विनाक प्रेट महें रहित के प्रेट महें रहित के सीमान्य पापरत्र से, 20/2020 और का जनवरी 2021 के सामान्य पिरात्र सं, सेवी/एवजो/सीएकडी/सीएकड

16वीं एजीएम की सूचना ओर वार्षिक रिपोर्ट कपनी की वेबसाइंट www.sullejlextlies.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoling.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए निर्देश :

सिमोट ई-वाहिंग और एजीएम के दौरान ई-वाहिंग के लिए निर्मण कर निर्मण कर निर्मण कर निर्मण कर निर्मण के दौरान ई-वाहिंग के लिए मिर्नण के साथ पित अधिनयम की घारा 108 और सुचीबद्ध कंपनियां द्वार प्रवान के जान वाली हैं व्यक्ति के स्वाह्म के साथ पित अधिनयम के घारा 108 और सुचीबद्ध कंपनियां द्वार प्रवान के जान वाली हैं व्यक्ति हैं विदेश के साथ पित सुचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी को एजीएम के दौरान अपने सदस्यों को सुदूर ई-वोहिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्तात है, सेवी परिपन्न सं. सेवी, 'एचओ, 'सीएफडी, 'सीआईआर, 'पी,'2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के साथ पतित सुचीबद्धता कियान के की परिपन्न सं. सेवी, 'एचओ, 'सीएफडी, 'सीआईआर, 'पी,'2020/242 दिनांक विसंवर 2020 के अनुपास ई-वोहिंग प्रक्रिया सक्ता साथ को सिंपण के सिंपण के स्वाह्म के सिंपण के स्वाह्म के सिंपण के स्वाह्म के सिंपण के स्वाह्म के सिंपण के अनुपास के सिंपण के सिंपण

दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने और एजीएम में ई-मतदान करने की अंतिम तिथि मगलवार 24 अगस्त 2021 है।

न राजधार २४ जाराच्या हो। एजीएम की सूचना के प्रेमण के बाद कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने और कंपनी का शेयरधारक बनने और अंतिम तिथि, अर्थात मंगलवार २४ अगस्ट 2021 को शेयर रखने वालें किसी भी व्यक्ति हारा evoling@nsdl.co.in या ashok.sherugar@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लांगीन आईर्ड और पासवर्क प्राप्त विच्या जा सकता है। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया 16वीं एजीएम के नोट में प्रवान की गई है। सदस्य, जिन्हें वीसी के माध्यम् से ई-एजीएम में

पान लोने के लिए सहायता की आवश्यकता है, पल्लवी महाने, प्रबंधक, एनएसडीएल से evoling@nsal.co.in पर या देनीशृंच उत् भगा लोने के लिए सहायता की आवश्यकता है, पल्लवी महाने, प्रबंधक, एनएसडीएल से evoling@nsal.co.in पर या देनीशृंच क 022-2498 4545 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग के मामने में संबंधित किसी भी प्रम्न के मामने में, सदस्य एनएसडीइएल ई-वोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध, अवसर पूछे जाने वाले प्रम्न (एफएक्यू)की सहायता ले सकते हैं और एनएसडीइएल ई-वोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड अनुमाग विभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका https://www.evoling.assl.com या निम्नलिखित टोल क्री नंबर 1800-1020-990/1800-2244-30 evoling@nsal.co.in पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या श्री अशोक शेरूगर, C-101, 247 पार्क LBS मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई-400083, ईमेल आईडी ashok sherugar@linkintime.co.in टेलीफोन नम्बर 022-49186000 से संपर्क कर सकर

्। उन सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिनका ई–मेल आईडी, डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे उपयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्ति के लिए एवं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई–वोटिंग करने हेतु ई–मेल पतों का पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका

- भा प्रजाब्द्य / अपडंद करने का तराका: यदि योग हो तो कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की रकेन की हुई कोषी), पेन (पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित रकेन की गुई कोषी), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित रकेन कोषी की प्रतिलिपि) प्रयान करें n.h.lebjetsk@linkinline.co.in पर इंनेल द्वारा यदि शेयरे डीमेट मोड में है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंको की डीपीआईडी-सीएलआईडी या 16 अंको की लामार्थी आईडी) नाम, प्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पेन (स्व सत्यापित की गाई प्रति), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि), प्रयान करें rnt.hebjdesk@linkintime.co.in पर ईंमेल द्वारा वैकिपक रूप से सदस्य याईट (क्षेया (क)में उल्लिखित विवरण को प्रयान करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evolina@msall.on पर ईंमेल व्वराय ।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में ग्रामिल होने की प्रक्रिया और एजीएम की कार्यवाही का लाईव वेबकास्ट वासा/ आपवाएम क माध्यम से एजाएम में जागमत होन का प्राकृत वा आप राजाएम का का वावा का लाइव ववकास्ट शेयरपारक काश्युर/www.evoling.aklo.m पर अपने पियां है जीविंग लागिन किर्डियियल का प्रयोग करते हुए और कंपनी की एपीएम के लिए 'EVEN' को सिलेक्ट करते हुए वीसी/ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं या एजीएम का लाईव वेबकारट देख सकते हैं। वीसी/ओवीएम ने माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत क्रिया एजीएम की युक्ता की टिप्पणियों में उल्लिखित की गई है। श्रेयरपारकों के मुन्ते पह हैं कि एजीएम की युक्ता में लिविंट सभी टिप्पणियों और विशेषकर एजीएम में मामिल होने से सबिधित अनुदेशों, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के तरीके से सबिधित अनुदेशों

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिक

## भारकर

BhaskarAd.com Call: 9772019222

### KAUTILYA COLLEGE MATHS

B.SC. BIOLOGY PANDEMIC RELIEF

2<del>385</del>0 15000

Contact : 7742288786, 9352558244

#### **BEST IN KOTA** P.G. COLLEGE SECTOR -8, MAHAVEER NAGAR- III, KOTA

**COURSE OFFERED** B.Sc.(Meths) B.Sc.(Blology) B.C.A. B.A.(M Sob.) M.Sc.(Physics) M.Sc.(Ch M.Sc.(Botasy) M.Sc.(Zoology) M.Sc.(Meth

FOR ONLINE ADMISSION VISIT US ON maabhartipgcollege.com 9413651151, 9829194030, 9829036299, 823303629

#### M.D. MISSION COLLEGE

B.Sc. B.Sc. B.Sc. Maths Biology Nursing

Veterinary Compounder पशुपन सहायक डिप्लोमा

Address: M.D. Mission Campus, Keshavpura, Kota £ 0744-2401324, 9414187305, 9001880449

एजकेशन **EDUCATION** 

आवश्यकता APPOINTMENT

#### रिक्षाकर्मी कोचिम क्लासेज

B.PEd. B.Ed. G.N.M. A.N.M D.Pharma मदर इण्डिया संस्थाः क्लोबार क्लोक्स ६६०७३१७७६

Female Principal, Incharge and Teachers Required for Nursery to 7th Manu Kids' World School 173, Ganesh Nagar, Khade Ganesh ji

हाड़ीजी क्षेत्र में कंपनी को मताले, क्षव जितरण करने हेतु केवल FMCG मर्केट का अनुसरी सेरलमेंस वाहिए Resume

#### प्रोफेशनल स्टडी कृषणा मतटी रपेशतिटी हॉरिपटल

s offering a 6- month with B -ABLE at Jaipur & o 9205799104 (Jainur) & 8949051001 (Udaipur

सेल्स एण्ड मार्केटिग

## 2, ਬਰਸੀਨਿਲ: 2, ਵੇਗੇਵੇਜ਼ੀ

STREET MBBS -2 (DNB) 9399941244. 8502970203 DCM की राम रेकरत में सेन्छर की ਗਰਮਣਰ ਹੈ। ਵਣਗਰੇਗ 1. ਹੇਰਦੀਜ਼ ਇਬੇਰੰ, 2. ਕੀਟੀਜ਼ ਗੱਧ, 3. ਉਚਿਲ ਹੋਈਜ਼ਿਕੇਸ਼ਜ਼, 4. Bank Account नेरोक्स, ५. आधार की वं चे फोटो १९४६१२२५१७८ गर की जेरोक्स, ४

एक मकान 23x40 हवल मंजिल विवेषी आवारा बजरन नगर में बेचना है लेनेबल रांपर्क 9352635777

राल-।

RESIDENTIAL-

नवापुरा प्रोपर्टी खरीदने/-- वेचने सम्पर्क GST रजिस्ट्रेशन 370790-8619912801

मेन जवाहरनगर में रजिस्टर्ड व्हा शुक्र पर्नाट विकास । राजपा 7230082424

#### एजकेशन EDUCATION

Admission Open BHMS, BUMS, BDS, BPT

ANM, GNM, DPharme, Dental Hygiene, DHMS, DAMS, DUMS, Sms/ Whatsapp 9893869473 (Only Practitioners

## ucation Express

वूसेन-आवश्यकता कोचिग क्लारोज

केवल अहिलातें- विद्यालय पन एके B.Ed. B.P.Ed. हेतु तारकालिक सर्वेवर व्यू मोर्डम स्कूल महत्त्वा गांवी कोर्लमी मार्व रोड कोरा। 9828973337 (11-1) D.El.Ed. B.Tech. **B.Pharma** PROPERTY

LLB. BA-LLB तहसील स्तर पर एडमिश किरावे से देना University Admission Jaipur 8890303999 Laisot 8890202999 Dausa 8890204999

3 BHK Ground Floor पर ਬੇਲੀਅਜੀ ਲੋੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾਰੇ ਪਟ ਲੇਗ है। ਪਰ- 295 VHL ਰਿਹੇਦਸ਼ਕਰ ਕਰਨ ਕਰਿੰਦਸ਼ਕਰ सर्विसेस

SERVICES

कॉमर्शिवल-लीज/रेंट COMMERCIAL-LEASE/ RENT

गैर रिहायशी राजस्थान का विश्वरानीय LOAN BAZAAR gez (cyloren chier, flunke, andre met suren elm (40% ge) (chie amfler 7417490627, 7417491227, 8791175027, 8791355027 22, कृतना नगर रंगवाड़ी काउन्ह क्लोर 100 फुट रोड़ पर कॉर्नर डॉल ਲਾਜਮਸ 1000 ਚੁਣ ਇਹਾਥੇ ਹੋ ਫੇਜ है। 9352717036

> Dhanlasmi Finance (1.00,000-90,00,000-) राजरत रहेव पर्यवस्य सर्विकेश्य, प्रोप्यति, विश्वस्य, एवीकस्यर 24 वर्षी में प्राप्त (2% क्यान), (50% कुट) विकित विश्वसिंदर रहेव III 8287081040, 8287047902.

CITY फाइमेंस- सर्व लोग से कटेगा 00000-95.00.000/-12888 -09835564771,07858064941

आवश्यकता APPOINTMENT

(क्षोंड कॉल से सकवाना TELECOM 4G SMS JOB RISK

लड़कियां गृहणियां पर बैठे कमाए मोबाइल मुख्ता (मैकरी हैत REFIGE Qualification SMS/ 8252588159 (पर पर रहे सेक रहे)

Online Pre Cum Mains Batch Star complete Course Within 90 to 100 Days tal 8 Hours Classes Daily 4 Hours Evening (8 to 12 Au 4 Hours Evening (4 to 8 PM

SWASTIK Law Academy 9799119889, 9314231878

आवश्यकल प्रावर्तन, राजनीति विद्यान, हिंदी शाहित्य, भूगोल, शंस्कृत-प्रत्येक विपन में ३, घरेलू काम हेतू महिलाई लहकियाँ कुछ, अत्या, राज्यहंकर्भी वाहिये 12/ 24 वर्ट रहना सामा प्रति 10000-अर्थवारम, अंग्रेजी शाहित्य 15000 (Rayz, Olaryz, 3'day 8875210185, 9351845670

छोटी फैमिली (जयपुर) के समस्त घरेलु कार्य (काम बनामा, साफ सम्प्रहें, छादू-चेंछा) हेतु 18-25 छाँच लावन बाहिए। (रहमा+ प्राप्त वाटान, माराचा वाटन, रस्ताव वाटान, भणित, राजवूटर अमुदेशकः घटचेक विषय में १ स्वेत्रप्राप्तादे आवेदन करें। श्रीलाल बतादुर शारणी कन्या रुकारकोत्तर माराविद्यालय, कोर्ट रोड श्रीनकोत्तुर (श्रीकार) राजनवान Iemañ-lbscollegesmpr Byahoo com ONIO:- 7976821466 पार्टटाइम

चिटर SMS सर्व कंपनी द्वारा नैकरी हेतु नाम पता SMS

WhatsApp # 08789015569 07368910967

**TELECOM 4G COMPANY** 

Whatsapp) 07481996399

09142855891

Telecome 4G HISH

√ पक्की केळटी रेलके, केळ, एउटपोर्ट, केवी, विकास, हेल्पर, केळट,

#### Telecom 4G SMS offe wa सेत्स एण्ड मार्केटिय

नेरकेफे काउंटर्स जयपुर पर

त्माजसारत्र, वनस्पति सारत्र तमी सारत्र, भौतिक सारत्र,

डॉक्टर

Required Gynaecologist, General Practitioner (MS/ MD/MBBS), ENT Surgeon, Lady doctor (MBBS/ BAMS), BHMS), Attactive salary +Share+Accomodation near Jaipur-9963611174 (SMS- JOB) लड़केर लड़केर गृहीनवां घटेची कामचे 18,500-45,000 महीना (नेपटर्गेन-मोबाइल मुक्ता) (मीकटी हेतु बना पड़ा sms/ Whatsapp करे)- 09142828624, 07979827508 गर्स Telecom 4G कंपनी SMS,

MD (General Medicine) M88S(Retired or min years Experience), General Surgeon, Pharmasist Nursing Staff for Sharma Nursing Home kipur Contact 9462343111,

SMS- JOB वारके लड़के। लड़कियां गुरुणियां घर बैठे चम्मा 20,500-45,000 महिन (तैपटीर+ मेबाइन मुन्त) Name, address SMS/ whatsapp करे-लैब टेक्नीशियन **Veda Advance Diagnostic** 09341818748, 09341848432

& Research Centre, Moti Dungri Circle Jaipur, required Radiologist, Telecom 4G 地切磨 (SMS 300) वार के लड़केर लड़कियाँ, मृतमितां घर बेडे कम्बर् 21,500 -45,000 महीना लैपटींप+ मोबाइल Sono-typist, Marketing Manager, Good Salary Mail/ Whatsapp: manojdr16@ gmail.com, 9549589992, 9549589991 मुक्त Call/ sms, Whatsapp करे 6205183719, 9341185097 अस्य

## Required ITVDiploma Technician in Electron

तकनीशियन

Multimeter, Wiring, Scidering etc. & Travel Email: शिक्षाकर्मी पियोन हैल्पर

# NET

9" Aug. 11am 11" Aug. 8:15er es | Recorded Course RAS both R College Lecturer ASO/SO/Computer E Tall major C 1" Grade Lecturer 80100-786-03 / 8302 450 450

# 9" Aug.-Sam

# New Batch Start Live From Classro

अपॉइंटमेंट एड बक करें

Near Civil Lines Metro "Anchore Mall

#### BhaskarAd.com कॉमर्शियल-लीज/रेंट दुकान

COMMERCIAL-LEASE/ RENT मल्टीस्टोरी

**ASTROLOGY** 

गुरु अमरनाव शास्त्री (मोल्ड महरिक्ट) मानवर्ग महितिक्ट) मानवात प्रवाद व्यक्तिक्ट) मानवात प्रवाद व्यक्तिक्ट, तत्त्वक, साथ, दूशमा पुटकारा, पठि-पठते असबन, गृह क्लेस, प्रवाद में क्रिका-9719532222, 9958232732

> प्रॉपर्टी PROPERTY

किराये से देना tolet

अस्त की ग.1 कंपनी इस्त अभी कंपनी के अस्टीमीडिया 4G/5G बेटकर्ड अपनी असीन, खेत 28-900,000,00 इक 24 घंटे में सर्वे कर

ftiin gftm-8384894624, 6395790649.

रजिरहेशन की मान्यत प्राप्त GTL उपरारण छत, प्लॉड श्रेत 40/5G टॉवर लगावा (90,00,000 एडवॉन 90,000 किराब औक्षरी 20 खल कोर्ट एवंडेमेंट) (24 घंटे में सर्वे, केड प्राप्त-06307548910, 07722870184,

## **TELECOM COMPANY**

Live Webinars

on e-Zenith

TELECOM COMPANY SMS SENDING JOB 전함 /전략하게 3년하게 3년하기 (20,500- 45,000) 개원제 -(LAPTOP+ MOBILE FREE) (HOME BASED) -Name, address SMS/ whatsapp-7488541032

Telecom 4G, SMS JOB (कार्का राष्ट्रीय राष्ट्रीकार्य, मृत्यिका घर बेटे कामार 18.500-45.000 मरीका (रोक्टरीक मोबाइरफ्केकरी हेतु साम पता Califaria, Whatsapp सारे 09905851846, 09363973804

कोवपुर (भागत वी कोडी) प्राइम (कोशहान पर 1000-1500 Saft वानविश्वित अगाह बैंक, लोशान, आफिस, क्रिसिक हेतु उपयुक्त-8628085555, 9828201333

रेसीडेशियल-फॉर सेल

Extension, Jaipur- JDA Approved, Prime Locatio Commercial' Residential

Pioto & Villa Available 100/60 Feet & 30 Feet With All Basic Ame (Plot Rates - 20,000/ nwords/ Sq. yard) - Plot Size- 65 to 170 Sq. yards-

Shift- 9829069160 (Rera सकान 3 ਬੈਂਡਲਮਮ ਗਿੰਦਾ, ਧਾਰੀ ਤਾਰੇ ਬਦਾਸ਼ हाउस फेसिंग, अक्पुर अजमेर हाईवे पर (अक्पुर जिल्ला) . मी सेज रोड,प्रोजेक्ट- ऑगन विला

> 6377002539,8764472571, 8879641004 जबपुर वैशाली नगर की-वर्गीक 245गाज वेरट फेरिंग हुप्लेक्स 4वेडराम, 4कवरान, 2किका

१हाल, रहीर, रहडी रूम प्री होल्ड प्रीरही ७०२३७४८३१७ कॉमर्शिवल-फॉर सेल

महापुरा (मागलमा डेवेलपर्ग), सापीत 45 Lakhs, वॉल ow

COMMERCIAL-FOR SALE

## 8 am to 12 pm (Both Hindi & English Med RJS 2019 대 Total 50 Selections Out of 197 US 2018 of Total 7 Selections Out of 35 Menter & Main Faculty K. D. Charan Sir (Ex RJS) K D Advanced Law Classes Institut - 3 विलक में

किराए हेतु रिहायशी, गैर रिहायशी १२०० से १५०० Jaipur, Prime Location, Second Floor, 558 sq.ft.

Furnished AC Office, Twoway Entry, 9057579921 रेसीडेशियल-फॉर सेल FOR SALE

BUSINESS डीतर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर

तम्बाकू गुटखा माउन्होशन मार्गी प्रधानमाना बतावे जी

महीन लगकर असी पैसे करना

बिजनेस

Jungarum ... dabari Area. Contact 9829116452 किरावे से

For Sale of corner 55 x 60

igft (plot size ) Bu

माल हमारे लेकर हमें क्यार देख रोगा जमपुर 8003306591, 9116836533 TOLET तम्बकु मुद्रका माउव फेशनर सुवारी पान माराला काने की मारीन तानकर आहे पैसे का माल हमते लेकर हमें वापस दे सेमा जमपुर 8003306591, 9116836533 Furnished

A28 मोली नगर विस्तार धेकड़ा रोड बोरखेड़ा 28HK सेमी फरनिन्ड फेर्डन शाकावरी व मोकरीपेश को प्राथमिकता।

फाइनेंस महिद्रा फाइनेस किराये से लेना

to-hire मकान

पातकों को इस प्रकारन में प्रकारित किसी भी निहारन के संबंध में ऐसे मेजने, कोई भी कई उसने ना किसी भी कई-कोई पर अपन

GOVERNMENT

REGISTERED) 24x 7 3007,

衛) 9319936129.

**√**1234